

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली

Industrial Research & Development Unit

औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास इकाई

हौज खास, नई दिल्ली -110016

Tel.:011-26597534

No. IITD/IRD/MI01116/188639

Date:06 /07/2018

Advertisement No.: IITD/IRD/146/2018

Candidates of Indian nationality are invited to appear for the **Walk-in test / interview** for project appointments under the following project. Appointment shall be on contractual basis on consolidated pay renewable yearly or upto the duration of the project, whichever is earlier. निम्नलिखित परियोजना के तहत परियोजना की नियुक्तियों के लिए भारतीय राष्ट्रियता के उम्मीदवारों को वॉक-इन परीक्षा/साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अपॉइंटमेंट वार्षिक आधार पर या परियोजना की अवधि तक समेकित वेतन पर संविदात्मक आधार पर होगा, जो भी पहले हो.

Title of the Project	Operational Expenses for Central Research Facility (CRF) MI01116	
Funding Agency	Industrial Research and Development Unit (IIT Delhi)	
Name of the Project Investigator	Prof. Ashwini K Agrawal	
Deptt./Centre	Central Research Facilities	
Duration of the Project	Upto:31/03/2019	
Post (s)	Consolidated Pay-slab	Qualifications
Sr. Project Scientist (2)	Rs.40,000-44,000-48,000-52,000-56,000-60,000-64,000/- p.m. plus HRA @ 20%	Ph.D. with first class in Applied Sciences / Engineering in Physics / Chemical / Polymer / Textile / Biology related areas with hands-on-experience in running advanced characterization facilities.
Project Scientist (4)	Rs.32,000-35,200-38,400- 41,600-44,800-48,000-51,200/- p.m. plus HRA @ 20%	M.Tech. with first class in Applied Sciences / Engineering in Physics / Chemical / Polymer / Textile / Biology related areas with atleast 2 year hands-on-experience in running advanced characterization facilities OR B.Tech. / M.Sc. with first class in Applied Sciences / Engineering in Physics / Chemical / Polymer / Textile / Biology related areas with atleast 4 year hands-on-experience in running advanced characterization facilities
Project Associate (4)	Rs.27,500-30,250-33,000-35,750-38,500-41,250-44,000/- p.m. plus HRA @ 20%	M.Tech. with first class in Applied Sciences / Engineering in Physics / Chemical / Polymer / Textile / Biology related areas with exposure to experimental work with advanced characterization facilities OR B.Tech. / M.Sc. with first class in Applied Sciences / Engineering in Physics / Chemical / Polymer / Textile / Biology related areas with atleast 2 year hands-on-experience in running advanced characterization facilities
Walk In Test / Date of Interview	Time of Interview	Venue
18/07/2018	10.00 a.m.	Committee Room, Department of Textile Technology, Indian Institute of Technology Delhi, Hauz Khas, New Delhi-110016

The post(s) may be downgraded as per discretion of the Selection Committee if none of the candidate is found suitable for the post.

The candidates who fulfill the above qualifications/experience should appear for the interview. Kindly bring your formal application on Form No. IRD/REC-4, which can be downloaded from IRD Website (<http://ird.iitd.ac.in/rec>) through proper channel along with complete information regarding educational qualifications indicating percentage of marks of each examination passed, details of work experience and a recent passport size photograph, along with original certificates (both academic & professional) for verification on the date of interview.

Contd...

No candidate, who is already employed at the Institute / IRD shall be interviewed unless his/her application has been duly forwarded by their concerned establishment/sections. 5% relaxation of marks may be granted to the SC/ST Candidates. In case of selection of a retired/superannuated government employee, his/her salary will be fixed as per prevailing IRD norms.

In case any clarification is required on eligibility regarding the above post, the candidate **may contact Prof. Ashwini Kumar Agrawal at e-mail id: ashwini@smita-iitd.com**

(वीरेंद्र कुमार वशिष्ठ)
सहायक कुल्सचिव, आईआरडी

वितरण

- Dept./Centres/Units के प्रमुख: यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त विज्ञापन की सामग्री आपके विभाग / केंद्र / यूनिट में कार्यरत कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाएगा
 - वेबमास्टर, आईआरडी (Web Master, IRD): आईआईटीडी वेबसाइट पर विज्ञापन डालने के लिए
 - नोटिस बोर्ड (Notice Board)
 - विज्ञापन फ़ाइल (Advertisement File)
- प्रो. अश्विनी कुमार अग्रवाल, परियोजना अन्वेषक, Central Research Facility / केंद्रीय अनुसंधान सुविधा

